

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 11 सितंबर 2022

### प्रश्न -1

निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने 29वें जिले के रूप में मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी का उद्घाटन किया है?

- A) बिहार
- B) छत्तीसगढ़
- C) हरियाणा
- D) झारखंड

**सही उत्तर: B**

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में राज्य के 29वें जिले के रूप में मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी का उद्घाटन किया।

### प्रश्न -2

निम्नलिखित में से किस राज्य ने किच्चा सुदीप को अपनी 'पुण्यकोटी दत्तू योजना' योजना के लिए ब्रांड एंबेसडर के रूप में नियुक्त किया?

- A) गुजरात
- B) कर्नाटक
- C) तेलंगाना
- D) उत्तर प्रदेश

**सही उत्तर: B**

कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ स्टार किच्चा सुदीप को अपनी 'पुण्यकोटी दत्तू योजना', मवेशी गोद लेने की योजना के लिए ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 11 सितंबर 2022

### प्रश्न -3

अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया?

- A) 08 सितंबर
- B) 05 सितंबर
- C) 03 सितंबर
- D) 01 सितंबर

**सही उत्तर: B**

अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है।

### प्रश्न -4

निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा?

- A) गुजरात
- B) हिमाचल प्रदेश
- C) नई दिल्ली
- D) उत्तर प्रदेश

**सही उत्तर: A**

गुजरात इस साल 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 11 सितंबर 2022

### प्रश्न -5

निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में मंगोलिया और जापान की अपनी 5 दिवसीय यात्रा पूरी की?

- A) एस. जयशंकर
- B) राजनाथ सिंह
- C) नितिन गडकरी
- D) अमित शाह

**सही उत्तर: B**

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगोलिया और जापान की अपनी पांच दिवसीय यात्रा पूरी की। किसी भारतीय रक्षा मंत्री की मंगोलिया की यह पहली यात्रा है।

### प्रश्न -6

भारत में शिक्षक दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है?

- A) ए.पी.जे. अब्दुल कलामी
- B) ईश्वर चंद्र विद्यासागर
- C) सर्वपल्ली राधाकृष्णन
- D) सावित्रीबाई फुले

**सही उत्तर: C**

भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 11 सितंबर 2022

### प्रश्न -7

साइरस मिस्त्री की 4 सितंबर, 2022 को एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वह निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी के पूर्व अध्यक्ष थे?

- A) टाटा समूह
- B) भारती एयरटेल
- C) आदित्य बिड़ला समूह
- D) अदानी समूह

**सही उत्तर: A**

टाटा संस के पूर्व प्रमुख साइरस मिस्त्री की हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर एक तेज रफ्तार कार दुर्घटना में मौत हो गई थी।

### प्रश्न -8

निम्नलिखित में से किस राज्य में घटियाना द्विवर्ण नामक एक नई केकड़ा प्रजाति की खोज की गई है?

- A) कर्नाटक
- B) केरल
- C) मध्य प्रदेश
- D) उत्तराखंड

**सही उत्तर: A**

कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ के येल्लापुर तालुक से घाटियाना द्विवर्ण नामक नई केकड़ा प्रजाति की खोज की गई है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 11 सितंबर 2022

### प्रश्न -9

निम्नलिखित में से किसे यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था?

- A) ऋषि सुनक
- B) प्रीति पटेल
- C) पेनी मॉड्रॉट
- D) लिज़ ट्रस

**सही उत्तर: D**

लिज़ ट्रस यूनाइटेड किंगडम की 56वीं प्रधानमंत्री बन गयी हैं।

### प्रश्न -10

निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को आर्मी जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया है?

- A) बांग्लादेश
- B) भूटान
- C) जापान
- D) नेपाल

**सही उत्तर: D**

भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को हाल ही में नेपाल की राष्ट्रपति श्रीमती विद्या देवी भंडारी ने नेपाली सेना के मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित किया।